



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 कार्तिक 1935 (श0)  
(सं0 पटना 852) पटना, बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर 2013

---

#### बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

##### अधिसूचना

13 नवम्बर 2013

सं0 नि० प्रा०/नि० 1-22/2012-**1183**—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमिता हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, राजेन्द्रनगर, पटना से संबद्ध क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, मोहिदीपुर, जगदीशपुर, भागलपुर का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार उक्त क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लिमिटेड की उपविधियों में यथा अंकित प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 13.12.2013 (शुक्रवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित संघ के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन संघ के प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-969 दिनांक 02.09.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.07.2013 निर्धारित की गयी है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में उक्त क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड के चुनाव में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) उक्त संघ के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (ii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iii) अगर संघ में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (vi) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लि., मोहिदीपुर, जगदीशपुर, भागलपुर के चुनाव के लिए संलग्न मानक प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-2) में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 18.11.2013 को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लि०, मोहिदीपुर, जगदीशपुर, भागलपुर के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र-2 में तथा मतगणना की तिथि को संलग्न प्रपत्र-3 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैंक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,  
फूल सिंह,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

#### परिशिष्ट-1

क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लि०, मोहिदीपुर, पोस्ट-कतारपुर, हबीबपुर, प्रखंड-जगदीशपुर, भागलपुर के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	18.11.2013 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	03.12.2013 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	04.12.2013 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	05.12.2013 (बृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	13.12.2013 (शुक्रवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	13.12.2013 (शुक्रवार) (अपराह्न 3-4 बजे से)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 852-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>